



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5176]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 31, 2018/पौष 10, 1940

No. 5176]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 31, 2018/PAUSHA 10, 1940

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2018

का.आ. 6455(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि तेलंगाना राज्य के करीमनगर जिले में NH563 के कि.मी. 69.8 से कि.मी. 95.3 (हुजुरबाद) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् रेवेनुए डिविशनल अफसर हुजुरबाद को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

तेलंगाना राज्य के करीमनगर जिले में NH563 के कि.मी. 69.8 से कि.मी. 95.3 (हुजुरबाद) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: तेलंगाना		जिले का नाम: करीमनगर			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: शंकरपटनम					
गांव का नाम: अंबालपूर					
1	274	निजी	बेट	2,301.7300000(वर्ग मीटर)	0.2301730
2	275	निजी	बेट	2,832.9000000(वर्ग मीटर)	0.2832900
3	277	निजी	बेट	1,163.5100000(वर्ग मीटर)	0.1163510
4	278/2	निजी	ड्राई	907.7000000(वर्ग मीटर)	0.0907700
5	278/3	निजी	ड्राई	12,393.9400000(वर्ग मीटर)	1.2393940
6	278/5	निजी	ड्राई	708.2200000(वर्ग मीटर)	0.0708220
7	278/6	निजी	ड्राई	1,315.2700000(वर्ग मीटर)	0.1315270
8	282	निजी	ड्राई	1,669.3900000(वर्ग मीटर)	0.1669390
9	284/3	निजी	ड्राई	151.7600000(वर्ग मीटर)	0.0151760
10	284/4	निजी	ड्राई	834.6900000(वर्ग मीटर)	0.0834690
11	298	निजी(पत्ता)	बेट	4,375.8200000(वर्ग मीटर)	0.4375820
12	3	निजी	ड्राई	4,931.1500000(वर्ग मीटर)	0.4931150
13	300	निजी	ड्राई	2,611.6100000(वर्ग मीटर)	0.2611610
14	301	निजी	बेट	809.4000000(वर्ग मीटर)	0.0809400
गांव का नाम: केशवापटनम					
1	51	निजी	बेट	501.6800000(वर्ग मीटर)	0.0501680
2	14	निजी	बेट	870.4100000(वर्ग मीटर)	0.0870410
3	15	निजी	बेट	793.4900000(वर्ग मीटर)	0.0793490
4	35	सरकारी(एसाइन्ड)	ड्राई	466.2400000(वर्ग मीटर)	0.0466240
5	36/4	निजी	ड्राई	2,529.3800000(वर्ग मीटर)	0.2529380

6	37	निजी	ड्राई	7,482.8500000(वर्ग मीटर)	0.7482850
7	375	निजी	बेट	0.5700000(वर्ग मीटर)	0.0000570
8	377/2	निजी	बेट	252.9400000(वर्ग मीटर)	0.0252940
9	378	निजी	बेट	404.3000000(वर्ग मीटर)	0.0404300
10	379	निजी	बेट	225.4000000(वर्ग मीटर)	0.0225400
11	380	निजी	बेट	274.3400000(वर्ग मीटर)	0.0274340
12	381/2	निजी	बेट	1,214.1000000(वर्ग मीटर)	0.1214100
13	382	निजी	बेट	575.8600000(वर्ग मीटर)	0.0575860
14	383	निजी	बेट	215.8200000(वर्ग मीटर)	0.0215820
15	388	निजी	बेट	330.1800000(वर्ग मीटर)	0.0330180
16	389	निजी	बेट	167.6200000(वर्ग मीटर)	0.0167620
17	392	निजी	बेट	604.8000000(वर्ग मीटर)	0.0604800
18	397	निजी	बेट	84.4500000(वर्ग मीटर)	0.0084450
19	398/2	निजी	बेट	455.2800000(वर्ग मीटर)	0.0455280
20	40/2	निजी	बेट	708.2300000(वर्ग मीटर)	0.0708230
21	41/2	निजी	बेट	1,517.6200000(वर्ग मीटर)	0.1517620
22	42/2	निजी	बेट	101.1800000(वर्ग मीटर)	0.0101180
23	43/2	निजी	बेट	910.5800000(वर्ग मीटर)	0.0910580
24	44	निजी	बेट	481.7800000(वर्ग मीटर)	0.0481780
25	448	निजी	बेट	1,848.3200000(वर्ग मीटर)	0.1848320
26	451	निजी	बेट	612.9100000(वर्ग मीटर)	0.0612910
27	48	निजी	बेट	63.8800000(वर्ग मीटर)	0.0063880
28	480/3/2	सरकारी(एसाइन्ड)	बेट	259.5800000(वर्ग मीटर)	0.0259580
29	481/2	निजी	ड्राई	354.1100000(वर्ग मीटर)	0.0354110
30	488	निजी	ड्राई	3,318.3900000(वर्ग मीटर)	0.3318390
31	489/2	निजी	ड्राई	2,757.0200000(वर्ग मीटर)	0.2757020
32	49	निजी	बेट	332.1000000(वर्ग मीटर)	0.0332100
33	510	निजी	ड्राई	1,402.9600000(वर्ग मीटर)	0.1402960

34	512	निजी	ड्राई	1,106.6400000(वर्ग मीटर)	0.1106640
35	514	निजी	ड्राई	452.2900000(वर्ग मीटर)	0.0452290
36	530	निजी	ड्राई	223.7400000(वर्ग मीटर)	0.0223740
37	531	निजी	ड्राई	3,291.5300000(वर्ग मीटर)	0.3291530
38	534	निजी	ड्राई	113.3800000(वर्ग मीटर)	0.0113380
39	551	निजी	ड्राई	238.2600000(वर्ग मीटर)	0.0238260
40	552	निजी	ड्राई	2,622.1600000(वर्ग मीटर)	0.2622160
41	57	निजी	वेट	2,017.7800000(वर्ग मीटर)	0.2017780
42	58/2	निजी	वेट	101.1700000(वर्ग मीटर)	0.0101170
43	59/2	निजी	वेट	505.8700000(वर्ग मीटर)	0.0505870
44	68	निजी	ड्राई	1,030.9200000(वर्ग मीटर)	0.1030920
45	76/2	निजी	वेट	50.5900000(वर्ग मीटर)	0.0050590
46	78/2	निजी	Wet	3,136.4200000(वर्ग मीटर)	0.3136420
47	79/2	निजी	वेट	1,214.1000000(वर्ग मीटर)	0.1214100
48	80/2	निजी	वेट	151.7600000(वर्ग मीटर)	0.0151760
49	81/2	निजी	वेट	2,225.8500000(वर्ग मीटर)	0.2225850
50	82	सरकारी	ड्राई	2,350.4300000(वर्ग मीटर)	0.2350430
51	PWD Road	सरकारी	ड्राई	607.0500000(वर्ग मीटर)	0.0607050
52	River	सरकारी	ड्राई	3,844.6500000(वर्ग मीटर)	0.3844650
53	Vagu	सरकारी	ड्राई	607.0500000(वर्ग मीटर)	0.0607050

गांव का नाम: कोथागट्ट

1	02	सरकारी	वेट	708.2300000(वर्ग मीटर)	0.0708230
2	03	सरकारी	वेट	404.7000000(वर्ग मीटर)	0.0404700
3	124	निजी	वेट	816.7400000(वर्ग मीटर)	0.0816740
4	125	निजी	वेट	289.2000000(वर्ग मीटर)	0.0289200
5	127	निजी	वेट	303.5300000(वर्ग मीटर)	0.0303530
6	129	सरकारी	शिकम	396.9200000(वर्ग मीटर)	0.0396920
7	138	निजी	ड्राई	361.8000000(वर्ग मीटर)	0.0361800

8	141	निजी	ड्राई	8.0100000(वर्ग मीटर)	0.0008010
9	142	निजी	ड्राई	3,117.6900000(वर्ग मीटर)	0.3117690
10	165	निजी	ड्राई	404.7000000(वर्ग मीटर)	0.0404700
11	166	निजी	बेट	1,051.7800000(वर्ग मीटर)	0.1051780
12	167	निजी	बेट	1,001.1800000(वर्ग मीटर)	0.1001180
13	168	निजी	बेट	3,972.9000000(वर्ग मीटर)	0.3972900
14	17	निजी	बेट	161.0900000(वर्ग मीटर)	0.0161090
15	172	निजी	बेट	1,112.9200000(वर्ग मीटर)	0.1112920
16	173	सरकारी(शिकम)		4,047.0000000(वर्ग मीटर)	0.4047000
17	19	निजी	बेट	86.3700000(वर्ग मीटर)	0.0086370
18	20	निजी	बेट	148.0900000(वर्ग मीटर)	0.0148090
19	231	निजी	ड्राई	1,747.1900000(वर्ग मीटर)	0.1747190
20	232	सरकारी	ड्राई	101.1800000(वर्ग मीटर)	0.0101180
21	233	निजी	ड्राई	3,270.4500000(वर्ग मीटर)	0.3270450
22	253	निजी	बेट	272.2200000(वर्ग मीटर)	0.0272220
23	254	निजी	बेट	389.5100000(वर्ग मीटर)	0.0389510
24	256	निजी	बेट	1,179.7800000(वर्ग मीटर)	0.1179780
25	257	निजी	बेट	1,706.5400000(वर्ग मीटर)	0.1706540
26	270	निजी	बेट	42.5800000(वर्ग मीटर)	0.0042580
27	273	निजी	बेट	423.9000000(वर्ग मीटर)	0.0423900
28	274	निजी	बेट	1,013.3000000(वर्ग मीटर)	0.1013300
29	275	सरकारी	बेट	809.4000000(वर्ग मीटर)	0.0809400
30	279	सरकारी	बेट	202.3500000(वर्ग मीटर)	0.0202350
31	281	निजी	बेट	343.1200000(वर्ग मीटर)	0.0343120
32	282	सरकारी	बेट	101.1700000(वर्ग मीटर)	0.0101170
33	55	निजी	बेट	382.1500000(वर्ग मीटर)	0.0382150
34	573	सरकारी	ड्राई	1,264.6900000(वर्ग मीटर)	0.1264690
35	574	निजी	ड्राई	2,308.2400000(वर्ग मीटर)	0.2308240

36	576	निजी	ड्राई	523.3900000(वर्ग मीटर)	0.0523390
37	58	निजी	ड्राई	1,380.4200000(वर्ग मीटर)	0.1380420
38	598	निजी	वेट	18.8900000(वर्ग मीटर)	0.0018890
39	599	निजी	वेट	33.1300000(वर्ग मीटर)	0.0033130
40	6	निजी	वेट	752.2800000(वर्ग मीटर)	0.0752280
41	601	निजी	वेट	203.6000000(वर्ग मीटर)	0.0203600
42	602	निजी	वेट	743.7700000(वर्ग मीटर)	0.0743770
43	603	निजी	वेट	385.0000000(वर्ग मीटर)	0.0385000
44	604	निजी	वेट	777.4900000(वर्ग मीटर)	0.0777490
45	7	निजी	वेट	107.2300000(वर्ग मीटर)	0.0107230
46	8	निजी	वेट	202.2800000(वर्ग मीटर)	0.0202280
47	9	निजी	वेट	815.2600000(वर्ग मीटर)	0.0815260
48	95	सरकारी(एसाइन्ड)	वेट	498.3100000(वर्ग मीटर)	0.0498310
49	96	सरकारी	ड्राई	708.2200000(वर्ग मीटर)	0.0708220
50	97	निजी	dry	3,900.1600000(वर्ग मीटर)	0.3900160
गांव का नाम: मोलंगूर					
1	712 /2	निजी	ड्राई	8,195.1800000(वर्ग मीटर)	0.8195180
2	662	निजी	ड्राई	973.5800000(वर्ग मीटर)	0.0973580
3	710	निजी	ड्राई	916.4400000(वर्ग मीटर)	0.0916440
4	711	निजी	ड्राई	319.4800000(वर्ग मीटर)	0.0319480
5	712 /3	निजी	ड्राई	3,439.9500000(वर्ग मीटर)	0.3439950
6	712 /4	निजी	ड्राई	202.3500000(वर्ग मीटर)	0.0202350
7	712 /5	निजी	ड्राई	2,428.2000000(वर्ग मीटर)	0.2428200
8	road	सरकारी	ड्राई	377.8600000(वर्ग मीटर)	0.0377860
गांव का नाम: ताडिकल					
1	166	निजी	ड्राई	6,647.8800000(वर्ग मीटर)	0.6647880
2	169	सरकारी(शिकम)	वेट	227.6400000(वर्ग मीटर)	0.0227640
3	178	निजी	ड्राई	2,929.7300000(वर्ग मीटर)	0.2929730

4	182	निजी	ड्राई	12,426.0100000(वर्ग मीटर)	1.2426010
5	406	निजी	ड्राई	946.0100000(वर्ग मीटर)	0.0946010
6	408	निजी	वेट	1,658.1400000(वर्ग मीटर)	0.1658140
7	429	निजी	वेट	643.5900000(वर्ग मीटर)	0.0643590
8	436	निजी	वेट	162.9100000(वर्ग मीटर)	0.0162910
9	437	निजी	वेट	819.6400000(वर्ग मीटर)	0.0819640
10	438	निजी	वेट	4,047.0000000(वर्ग मीटर)	0.4047000
11	440	निजी	वेट	748.8900000(वर्ग मीटर)	0.0748890
12	441	निजी	वेट	144.1100000(वर्ग मीटर)	0.0144110
13	442	निजी	वेट	242.5000000(वर्ग मीटर)	0.0242500
14	443	निजी	वेट	392.8600000(वर्ग मीटर)	0.0392860
15	444	निजी	वेट	84.8400000(वर्ग मीटर)	0.0084840
16	445	निजी	वेट	130.5000000(वर्ग मीटर)	0.0130500
17	446	निजी	वेट	67.5000000(वर्ग मीटर)	0.0067500
18	447	निजी	वेट	210.0800000(वर्ग मीटर)	0.0210080
19	450	निजी	वेट	181.1500000(वर्ग मीटर)	0.0181150
20	457	निजी	वेट	191.1500000(वर्ग मीटर)	0.0191150
21	458	निजी	वेट	161.5100000(वर्ग मीटर)	0.0161510
22	463	निजी	वेट	1,211.2800000(वर्ग मीटर)	0.1211280
23	464	निजी	वेट	787.6600000(वर्ग मीटर)	0.0787660
24	468	सरकारी(एसाइन्ड)	ड्राई	346.8400000(वर्ग मीटर)	0.0346840
25	471	सरकारी(एसाइन्ड)	वेट	107.0600000(वर्ग मीटर)	0.0107060
26	472	सरकारी(एसाइन्ड)	ड्राई	246.1700000(वर्ग मीटर)	0.0246170
27	474	निजी	ड्राई	2,178.8300000(वर्ग मीटर)	0.2178830
28	476	निजी	ड्राई	2,411.4200000(वर्ग मीटर)	0.2411420
29	622	निजी	वेट	303.5200000(वर्ग मीटर)	0.0303520
30	624	निजी	वेट	1,403.5300000(वर्ग मीटर)	0.1403530
31	625	निजी	ड्राई	116.4700000(वर्ग मीटर)	0.0116470

32	River	सरकारी(रिवर)	वेट	1,719.9800000(वर्ग मीटर)	0.1719980
कुल				200,766.5900	20.0767

[फा. सं. NHAI/PIU(WGL)/JKW/LA/2016/3A2]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 31th December, 2018

S.O. 6455(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH563 in the stretch of land from Km 69.8 to Km95.3 (Huzurabad) in the district of KARIMNAGAR in the state of TELANGANA, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Revenue Divisional Officer Huzurabad in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH563 in the stretch of land from NH563 (Huzurabad) in the district of KARIMNAGAR in the state of TELANGANA

State: TELANGANA		District: KARIMNAGAR			
Sl. No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature Of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Shankarapatnam					
Village: Ambalpur					
1	274	Private	Wet	2,301.7300000(Square Meter)	0.2301730
2	275	Private	Wet	2,832.9000000(Square Meter)	0.2832900
3	277	Private	Wet	1,163.5100000(Square Meter)	0.1163510
4	278/2	Private	Dry	907.7000000(Square Meter)	0.0907700
5	278/3	Private	Dry	12,393.9400000(Square Meter)	1.2393940
6	278/5	Private	Dry	708.2200000(Square Meter)	0.0708220
7	278/6	Private	Dry	1,315.2700000(Square Meter)	0.1315270
8	282	Private	Dry	1,669.3900000(Square Meter)	0.1669390

9	284/3	Private	Dry	151.7600000(Square Meter)	0.0151760
10	284/4	Private	Dry	834.6900000(Square Meter)	0.0834690
11	298	Private(Patta)	Wet	4,375.8200000(Square Meter)	0.4375820
12	3	Private	Dry	4,931.1500000(Square Meter)	0.4931150
13	300	Private	Dry	2,611.6100000(Square Meter)	0.2611610
14	301	Private	Wet	809.4000000(Square Meter)	0.0809400
Village: Keshavapatnam					
1	51	Private	Wet	501.6800000(Square Meter)	0.0501680
2	14	Private	Wet	870.4100000(Square Meter)	0.0870410
3	15	Private	Wet	793.4900000(Square Meter)	0.0793490
4	35	Government(Assigned)	Dry	466.2400000(Square Meter)	0.0466240
5	36/4	Private	Dry	2,529.3800000(Square Meter)	0.2529380
6	37	Private	Dry	7,482.8500000(Square Meter)	0.7482850
7	375	Private	Wet	0.5700000(Square Meter)	0.0000570
8	377/2	Private	Wet	252.9400000(Square Meter)	0.0252940
9	378	Private	Wet	404.3000000(Square Meter)	0.0404300
10	379	Private	Wet	225.4000000(Square Meter)	0.0225400
11	380	Private	Wet	274.3400000(Square Meter)	0.0274340
12	381/2	Private	Wet	1,214.1000000(Square Meter)	0.1214100
13	382	Private	Wet	575.8600000(Square Meter)	0.0575860
14	383	Private	Wet	215.8200000(Square Meter)	0.0215820
15	388	Private	Wet	330.1800000(Square Meter)	0.0330180
16	389	Private	Wet	167.6200000(Square Meter)	0.0167620
17	392	Private	Wet	604.8000000(Square Meter)	0.0604800
18	397	Private	Wet	84.4500000(Square Meter)	0.0084450
19	398/2	Private	Wet	455.2800000(Square Meter)	0.0455280
20	40/2	Private	Wet	708.2300000(Square Meter)	0.0708230
21	41/2	Private	Wet	1,517.6200000(Square Meter)	0.1517620
22	42/2	Private	Wet	101.1800000(Square Meter)	0.0101180
23	43/2	Private	Wet	910.5800000(Square Meter)	0.0910580
24	44	Private	Wet	481.7800000(Square Meter)	0.0481780
25	448	Private	Wet	1,848.3200000(Square Meter)	0.1848320
26	451	Private	Wet	612.9100000(Square Meter)	0.0612910
27	48	Private	Wet	63.8800000(Square Meter)	0.0063880
28	480/3/2	Government(Assigned)	Wet	259.5800000(Square Meter)	0.0259580
29	481/2	Private	Dry	354.1100000(Square Meter)	0.0354110
30	488	Private	Dry	3,318.3900000(Square Meter)	0.3318390
31	489/2	Private	Dry	2,757.0200000(Square Meter)	0.2757020
32	49	Private	Wet	332.1000000(Square Meter)	0.0332100

33	510	Private	Dry	1,402.9600000(Square Meter)	0.1402960
34	512	Private	Dry	1,106.6400000(Square Meter)	0.1106640
35	514	Private	Dry	452.2900000(Square Meter)	0.0452290
36	530	Private	Dry	223.7400000(Square Meter)	0.0223740
37	531	Private	Dry	3,291.5300000(Square Meter)	0.3291530
38	534	Private	Dry	113.3800000(Square Meter)	0.0113380
39	551	Private	Dry	238.2600000(Square Meter)	0.0238260
40	552	Private	Dry	2,622.1600000(Square Meter)	0.2622160
41	57	Private	Wet	2,017.7800000(Square Meter)	0.2017780
42	58/2	Private	Wet	101.1700000(Square Meter)	0.0101170
43	59/2	Private	Wet	505.8700000(Square Meter)	0.0505870
44	68	Private	Dry	1,030.9200000(Square Meter)	0.1030920
45	76/2	Private	Wet	50.5900000(Square Meter)	0.0050590
46	78/2	Private	Wet	3,136.4200000(Square Meter)	0.3136420
47	79/2	Private	Wet	1,214.1000000(Square Meter)	0.1214100
48	80/2	Private	Wet	151.7600000(Square Meter)	0.0151760
49	81/2	Private	Wet	2,225.8500000(Square Meter)	0.2225850
50	82	Government	Dry	2,350.4300000(Square Meter)	0.2350430
51	PWD Road	Government	Dry	607.0500000(Square Meter)	0.0607050
52	River	Government	Dry	3,844.6500000(Square Meter)	0.3844650
53	Vagu	Government	Dry	607.0500000(Square Meter)	0.0607050
Village: Kothagattu					
1	02	Government	wet	708.2300000(Square Meter)	0.0708230
2	03	Government	wet	404.7000000(Square Meter)	0.0404700
3	124	Private	wet	816.7400000(Square Meter)	0.0816740
4	125	Private	wet	289.2000000(Square Meter)	0.0289200
5	127	Private	wet	303.5300000(Square Meter)	0.0303530
6	129	Government	shikam	396.9200000(Square Meter)	0.0396920
7	138	Private	dry	361.8000000(Square Meter)	0.0361800
8	141	Private	dry	8.0100000(Square Meter)	0.0008010
9	142	Private	dry	3,117.6900000(Square Meter)	0.3117690
10	165	Private	dry	404.7000000(Square Meter)	0.0404700
11	166	Private	wet	1,051.7800000(Square Meter)	0.1051780
12	167	Private	wet	1,001.1800000(Square Meter)	0.1001180
13	168	Private	wet	3,972.9000000(Square Meter)	0.3972900
14	17	Private	wet	161.0900000(Square Meter)	0.0161090
15	172	Private	wet	1,112.9200000(Square Meter)	0.1112920
16	173	Government(shikam)		4,047.0000000(Square Meter)	0.4047000
17	19	Private	wet	86.3700000(Square Meter)	0.0086370
18	20	Private	wet	148.0900000(Square Meter)	0.0148090
19	231	Private	dry	1,747.1900000(Square Meter)	0.1747190

20	232	Government	dry	101.1800000(Square Meter)	0.0101180
21	233	Private	dry	3,270.4500000(Square Meter)	0.3270450
22	253	Private	wet	272.2200000(Square Meter)	0.0272220
23	254	Private	wet	389.5100000(Square Meter)	0.0389510
24	256	Private	wet	1,179.7800000(Square Meter)	0.1179780
25	257	Private	wet	1,706.5400000(Square Meter)	0.1706540
26	270	Private	wet	42.5800000(Square Meter)	0.0042580
27	273	Private	wet	423.9000000(Square Meter)	0.0423900
28	274	Private	wet	1,013.3000000(Square Meter)	0.1013300
29	275	Government	wet	809.4000000(Square Meter)	0.0809400
30	279	Government	wet	202.3500000(Square Meter)	0.0202350
31	281	Private	wet	343.1200000(Square Meter)	0.0343120
32	282	Government	wet	101.1700000(Square Meter)	0.0101170
33	55	Private	wet	382.1500000(Square Meter)	0.0382150
34	573	Government	dry	1,264.6900000(Square Meter)	0.1264690
35	574	Private	dry	2,308.2400000(Square Meter)	0.2308240
36	576	Private	dry	523.3900000(Square Meter)	0.0523390
37	58	Private	dry	1,380.4200000(Square Meter)	0.1380420
38	598	Private	wet	18.8900000(Square Meter)	0.0018890
39	599	Private	wet	33.1300000(Square Meter)	0.0033130
40	6	Private	wet	752.2800000(Square Meter)	0.0752280
41	601	Private	wet	203.6000000(Square Meter)	0.0203600
42	602	Private	wet	743.7700000(Square Meter)	0.0743770
43	603	Private	wet	385.0000000(Square Meter)	0.0385000
44	604	Private	wet	777.4900000(Square Meter)	0.0777490
45	7	Private	wet	107.2300000(Square Meter)	0.0107230
46	8	Private	Wet	202.2800000(Square Meter)	0.0202280
47	9	Private	wet	815.2600000(Square Meter)	0.0815260
48	95	Government(assigned)	wet	498.3100000(Square Meter)	0.0498310
49	96	Government	Dry	708.2200000(Square Meter)	0.0708220
50	97	Private	dry	3,900.1600000(Square Meter)	0.3900160
Village: Molangur					
1	712 /2	Private	dry	8,195.1800000(Square Meter)	0.8195180
2	662	Private	dry	973.5800000(Square Meter)	0.0973580
3	710	Private	DRy	916.4400000(Square Meter)	0.0916440
4	711	Private	dry	319.4800000(Square Meter)	0.0319480
5	712 /3	Private	dry	3,439.9500000(Square Meter)	0.3439950
6	712 /4	Private	dry	202.3500000(Square Meter)	0.0202350
7	712 /5	Private	dry	2,428.2000000(Square Meter)	0.2428200
8	road	Government	Dry	377.8600000(Square Meter)	0.0377860

Village: Thadikal					
1	166	Private	Dry	6,647.8800000(Square Meter)	0.6647880
2	169	Government(Shikam)	Wet	227.6400000(Square Meter)	0.0227640
3	178	Private	Dry	2,929.7300000(Square Meter)	0.2929730
4	182	Private	Dry	12,426.0100000(Square Meter)	1.2426010
5	406	Private	Dry	946.0100000(Square Meter)	0.0946010
6	408	Private	Wet	1,658.1400000(Square Meter)	0.1658140
7	429	Private	Wet	643.5900000(Square Meter)	0.0643590
8	436	Private	Wet	162.9100000(Square Meter)	0.0162910
9	437	Private	Wet	819.6400000(Square Meter)	0.0819640
10	438	Private	Wet	4,047.0000000(Square Meter)	0.4047000
11	440	Private	Wet	748.8900000(Square Meter)	0.0748890
12	441	Private	Wet	144.1100000(Square Meter)	0.0144110
13	442	Private	Wet	242.5000000(Square Meter)	0.0242500
14	443	Private	Wet	392.8600000(Square Meter)	0.0392860
15	444	Private	Wet	84.8400000(Square Meter)	0.0084840
16	445	Private	Wet	130.5000000(Square Meter)	0.0130500
17	446	Private	Wet	67.5000000(Square Meter)	0.0067500
18	447	Private	Wet	210.0800000(Square Meter)	0.0210080
19	450	Private	Wet	181.1500000(Square Meter)	0.0181150
20	457	Private	Wet	191.1500000(Square Meter)	0.0191150
21	458	Private	Wet	161.5100000(Square Meter)	0.0161510
22	463	Private	Wet	1,211.2800000(Square Meter)	0.1211280
23	464	Private	Wet	787.6600000(Square Meter)	0.0787660
24	468	Government(Assigned)	Dry	346.8400000(Square Meter)	0.0346840
25	471	Government(Assigned)	Wet	107.0600000(Square Meter)	0.0107060
26	472	Government(Assigned)	Dry	246.1700000(Square Meter)	0.0246170
27	474	Private	Dry	2,178.8300000(Square Meter)	0.2178830
28	476	Private	Dry	2,411.4200000(Square Meter)	0.2411420
29	622	Private	Wet	303.5200000(Square Meter)	0.0303520
30	624	Private	Wet	1,403.5300000(Square Meter)	0.1403530
31	625	Private	Dry	116.4700000(Square Meter)	0.0116470
32	River	Government(River)	Wet	1,719.9800000(Square Meter)	0.1719980
Total				200,766.5900	20.0767

[F. No. NHAI/PIU(WGL)/JKW/LA/2016/3A2]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.